

राजस्थान विधान सभा

तृतीय सत्र

कार्य-सूची

गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई, 2009

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. शोकाभिव्यक्ति

श्री बनवारीलाल बैरवा, पूर्व सांसद सातवी तथा आठवी लोकसभा एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री, राजस्थान व सदस्य, पांचवी, दसवीं एवं ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी ।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचना

श्रम एवं नियोजन विभाग

मास्टर श्री भंवरलाल मेघवाल, श्रम एवं नियोजन मंत्री श्रम एवं नियोजन विभाग की अधिसूचना संख्या : जी.एस.आर.-4 दिनांक 30 अप्रैल, 2009 जिसके द्वारा राजस्थान भवन एवं संनिर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) नियम, 2009 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखेंगे ।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

(I) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य विधान सभा सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के खान श्रमिकों को ई.एस.आई. सुविधा उपलब्ध कराने बाबत ई एस आई औषधालय खोलने हेतु एक याचिका का उपस्थापन करेगी ।

(2) श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

(I) उपखण्ड मुख्यालय जहाजपुर (भीलवाड़ा) में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत ; एवं
(II) नगरपालिका जहाजपुर में सम्मिलित राजस्व ग्राम बिन्ध्याभाटा, बोरानी का बाड़ा,पांचा का बाड़ा,लाला का बाड़ा,सेहला दांता एवं मजरो को नगरपालिका से पृथक कर नई पंचायतें बनाने बाबत ।

(3) श्री रमेश चन्द्र मीणा, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

(I) चम्बल नदी के र्हू घाट नामक स्थान पर विद्युत उत्पादन परियोजना लगवाने बाबत ;
(II) पंचायत समिति मुख्यालय सपोटरा पर महाविद्यालय खुलवाने बाबत ;
(III) करौली सामान्य चिकित्सालय को 300 बैड का कराने बाबत ; एवं
(IV) चम्बल नदी पर पुल निर्माण बाबत ।

5. परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान

अनुदान की मांग संख्या-46- सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर सहित) पर विचार एवं मतदान होगा ।

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं,
प्रस्तुत किये जायेंगे ।)

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 22 जुलाई, 2009